

**Preposition English grammar** ही महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनकी **importance** न केवल बोलते समय बल्कि लिखते समय भी अत्याधिक है। इसी के साथ साथ **Competitive exams** की दृष्टि से ये बहुत ही महत्त्वपूर्ण है।

आइए पहले जानते **preposition** क्या होते हैं -

**Preposition** वो शब्द या शब्दों का समूह है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम और वाक्य के दूसरे भाग के बीच के सम्बन्ध को दर्शाता है। सामान्यतः **Preposition** को संज्ञा या सर्वनाम से पहले लगाया जाता है। जिस संज्ञा या सर्वनाम के साथ **Preposition** का प्रयोग किया जाता है, वह संज्ञा या सर्वनाम इसका **Object** कहलाता है। (**Preposition is the word or group of words that is generally placed before a noun or a pronoun to express its relation with other part of the sentence.**)

**Preposition** के कुछ **example** देखिये - **in, on, at, into after etc.**

**Preposition** का सही भाषा में सही प्रयोग करना अतिआवश्यक है अन्यथा वाक्य के अर्थ बदल जाता है। जानते हैं कि किस तरह **Preposition** हमारी **language** को प्रभावित करता है? दूसरे शब्दों में इनका **importance** -

**He spoke to me in English.** (उसने मुझसे **English** में बात की।)

**He spoke about me in English.** (उसने मुझसे मेरे बारे में **English** में बात की।)

ऊपर दिए गए वाक्यों में **to (1st sentence)** और **about (2nd sentence)** में **Preposition** है।

पहले वाक्य से पता चलता है कि कुछ बातचीत हो रही थी जो की **English** में हो रही थी। यह स्पष्ट नहीं है कि क्या बातचीत हो रही थी पर किस भाषा का प्रयोग किया गया वह बताया गया है।

दूसरे वाक्य में **about** का प्रयोग **preposition** की तरह किया गया है जो साफ़ साफ़ यह दर्शा रहा है की बातचीत का विषय **me (मैं)** है और **English** में बातचीत की गयी।

सिर्फ़ अलग अलग **preposition** के प्रयोग से वक्ता का **intention** भी बदल गया इसलिए इनका प्रयोग बहुत ही सावधानी से करना चाहिए।

एक और **example** देखते हैं -

**Can I throw this ball to you?** (क्या मैं इस **ball** को आपके पास फेंक सकता हूँ?)

**Can I throw this ball at you?** (क्या मैं इस गेंद को आप पर फेंक सकता हूँ?)

अगर आपसे ये दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं तो पहले ध्यान से इनमें प्रयोग किया गए **preposition** को देख लें। पहले वाक्य में **to** का प्रयोग हुआ है और मैं आपकी तरफ **ball** फेंक रही हूँ। इसका **answer** आप दे सकते हैं - **Sure**. पर दूसरे वाक्य में **at** का अर्थ है की आप पर फेंक रही हूँ जिससे आपको नुकसान भी हो सकता है। इस परिस्थिति में आप उत्तर देंगे - **No, please don't. It might hurt me.**

मुझे उम्मीद है कि अब आपको यह **clear** हो गया होगा की किस तरह **preposition** किसी वाक्य का अर्थ बदल देते हैं।

वैसे तो बहुत सारे **prepositions** है पर आज हम कुछ रोज़ाना प्रयोग होने वाले **prepositions** और उनसे **related** होने वाली गलतियों को जानेंगे -

### 1. For

**से - 'For'** का प्रयोग अनिश्चित समय यानि समय की अवधि के साथ होता है जब भी कभी वाक्य में रहा, रही, रहे का प्रयोग भी हो। (**'For' is used for duration of time when the sentence is in continuous form**)**1. For 2 seconds/ 2 minutes/ 2 hours / 2 days/ 2 weeks/ 2 months/ 2 years / 2 centuries**

**2. For a long** (काफी देर से)

**3. For a while** (कुछ देर से)

**4. For many days/hours/months/years**

जैसे -

**I've been waiting for three hours.** (मैं तीन घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ।)

**We've lived here for four years.** (हम यहाँ चार साल से रह रहे हैं।)

**के लिए (For any purpose) -**

**He goes for a walk.** (वह टहलने जाता है।)

**He came to me for money.** (वह मेरे पास पैसे के लिए आया था।)

**वस्तुओं की कीमत बताने के लिए, की ओर दिशा [ The direction ] बताने के लिए, के पक्ष में बताने के लिए**

**I gave a mobile for Rs. 5000.** (मैंने 5000 रु में मोबाईल दिया।)

**He bought a pen for Rs. 5.** (उसने 5 रु में एक पैन खरीदा।)

### 2) Since

सामान्यतः **Since** का अर्थ से के लिए इस्तेमाल होता है। मुख्य तौर पर **Since** का उपयोग निश्चित समय के लिए होता है और साथ में जब भी कभी वाक्य में रहा है, रहा था, रहा होगा का उपयोग होता है। (**'since' is used for point of time when the sentence is in continuous form**)

Since 2 AM/ Since 1998/ Since Monday/ Since morning/ Since yesterday/ Since childhood  
**We've lived here since 2008.** (हम यहाँ 2008 रह रहे हैं।)

**He has been trying since Monday.** (वह सोमवार से कोशिश कर रहा है।)

**Kiran has been walking since morning.** (किरण सुबह से टहल रही है।)

**I have been learning English since 2018.** (मैं 2018 से अंग्रेजी सीख रहा हूँ।)

**For** और **since** में अक्सर लोग **confuse** होते हैं क्योंकि दोनों ही समय के लिए प्रयोग होता है। ध्यान रखें **For** का प्रयोग **period of time** के लिए और **since** का प्रयोग एक **specific point in time** के लिए होता है।

### 3) From

**a) किसी स्थान या जगह से आना या जाना बताने के लिए (From some place)**

**I am coming from USA.** (मैं USA से आ रहा हूँ।)

**They came from office.** (वे office से आये।)

**b) किसी समय से कुछ करना बताने के लिए (Point of time)**

**This shop is open from Monday to Sunday.** (यह दुकान सोमवार से रविवार तक खुली होती है।)

**I will work from tomorrow.** (मैं कल से काम करूँगा।)

**c) किसी चीज की स्रोत या उत्पत्ति बताने के लिए (From any source)**

**I heard it from Naval.** (मैंने यह नवल से सुना।)

**I wrote it from the book.** (मैंने यह किताब से लिखा।)

### 4) In

**a) समय के साथ (With time)**

in 2 years, in 2006, in summers, in the morning, in January

**I bought a car in 2008.** (मैं 2008 में कार लाया।)

**There must be some progress in next quarter.** (अगली तिमाही में कुछ प्रगति जरूर होनी चाहिए।)

**b) किसी बड़े स्थान के साथ जैसे की कोई देश, कोई राज्य, बड़ा नगर With large places**

**I live in USA.** (मैं अमेरिका में रहता हूँ।)

I live at Chandni Chawk in Delhi. (मैं दिल्ली में चांदनी चौक पर रहता हूँ।)

**c) किसी चीज या वस्तु के अंदर में बताने के लिए (In some object)**

He is swimming in the river. (वह नदी में तैर रहा है।)

I found no songs in this mobile. (मुझे इस मोबाइल में गाने नहीं मिले।)

### 5) Into

में - गतिशील अवस्था (**motion**)

Pour the coffee into the cup. (काँफी को कप में डालो)

He is going into the room. (वह कमरे में जा रहा है।)

**In और Into भी बहुत confusing हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि in में वस्तु पहले से ही अन्य जगह या वस्तु के अंदर होता है जबकि into में बाहर से अंदर जाता है। इसमें गति होती है।**

### 7) Before

सामान्यतः **Before** का अर्थ पहले या सामने होता है। जैसे - **before 2 o'clock, before evening**. इसका प्रयोग **in front of** के **place** पर भी कर सकते हैं।

He was standing before (in front of) the police inspector. (वह पुलिस इंस्पेक्टर के सामने खड़ा था।)

Now I am standing before you. (अब मैं आपके सामने खड़ा हूँ।)

This train will reach before time. (यह ट्रेन समय से पहले पहुँचेगी।)

Think before you act. (करने से पहले आप सोचो।)

### 8) After

समय को सूचित करने वाले शब्द के इस्तेमाल में करते हैं। (**Time expressing words**)

I will meet you after 10. (मैं तुमसे 10 बजे के बाद मिलूँगा।)

किसी के पीछे पड़ना

He was unnecessarily after that girl. (वह बेवजह उस लड़की के पीछे पड़ा हुआ था।)

I was after my boss for getting some help. (मैं मदद पाने के लिए अपने बॉस के पीछे पड़ गया था।)

के बावजूद के

After all my care it was stolen. (मेरी सभी सावधानी के बावजूद ये चोरी हो गया।)

### 9) By

सामान्यतः **By** का अर्थ द्वारा के लिए इस्तेमाल होता है।

#### **a) द्वारा (In passive voice)**

I was stopped by someone. (मुझे किसी के द्वारा रोका गया।)

Raj was beaten by his elder brother. (राज अपने बड़े भाई के द्वारा पीटा गया।)

#### **b) से - किसी वाहन से सफर करना (travel by some vehicle)**

I came here by the train. (मैं यहां ट्रेन से आया।)

#### **c) तक - (समय के साथ-केवल future indefinite tense में)**

He will leave by 6 o'clock in the morning. (वह सुबह 6 बजे तक निकल जायेगा।)

We will finish it by morning. (हम सुबह तक ये खत्म कर देंगे।)

**by** का प्रयोग “बगल में” के **sense** में भी किया जाता है

I was standing by him. (मैं उसके बगल में खड़ा था।)

### 10) With

से - **Perform a task with the help of something** (किसी चीज का प्रयोग करके कुछ करना)

I cut the cake with a knife. (मैंने चाकू से केक काटा।)

He killed the bird with a stone. (उसने पत्थर से चिड़िया मारी।)

साथ - किसी के साथ (**accompany someone or something**)

I am living with my family. मैं अपने परिवार के साथ रह रहा हूँ।

We will be with you. (हम आपके साथ रहेंगे।)

लोगों को अक्सर **confusion** रहता है कि I cut the cake ----- a knife. इस रिक्त स्थान में **with** भरें या **by**.

यहाँ तक कि बोलते समय भी इसमें बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं। ध्यान रखें **by used to indicate a mean or method** जैसे -

Please send this package to Delhi by airmail.

I came here by train.

जबकि **with** का प्रयोग जब किसी **instrument** का प्रयोग किया जाए, उस स्थिति में करते हैं जैसे -

He cut my hair with his gold scissors.

इसी तरह बहुत बार हम बोलते हैं - I am suffering with fever. जो की गलत है। सही वाक्य है I am suffering from fever. ("**from**" indicates the cause of your suffering)

### 11) At

#### **a) निश्चित समय के साथ (With point of time)**

He will come home at 10 AM. (वह सुबह 10 बजे घर आयेगा।)

I was born at 2. (मैं 2 बजे पैदा हुआ था)

#### **b) (में/पर) छोटी जगह के साथ (with small places)**

I stayed at a hotel. (मैं एक होटल में रुका।)

He was standing at the bus stop. (वह बस स्टॉप पर खड़ा था।)

#### **c) रात और दोपहर के साथ (With night/noon)**

I was there at noon. (मैं दोपहर में वहाँ था।)

We study at night. (हम रात में पढ़ते हैं।)

#### **d) किसी त्योहार या खास अवसर पर ( in any festival / event)**

I will come home at Holi. (मैं होली पर घर आऊँगा।)

### 12) Between और Among

**Between** और **Among** दोनों का ही अर्थ होता है बीच में और इसी कारण बहुत से लोग लिखते समय या बोलते समय इनका गलत प्रयोग करते हैं। **Between** का प्रयोग दो वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच में के अर्थ के लिए होता है जबकि दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच में को बताने के लिए **Among** का प्रयोग करते हैं। जैसे -

Book is lying between two tables. (पुस्तक दो टेबलों के बीच में रखा हुआ है।)

She is sitting between Yash & Vaibhav. (वह यश और वैभव के बीच में बैठी है।)

I was among 50 people. (मैं 50 लोगों के बीच में था।)

My brother is standing among the girls. (मेरा भाई लड़कियों के बीच में खड़ा है।)

### 13) Under और Below

सामान्यतः **Under** और **Below** का अर्थ नीचे होता है।

**Under**

a) किसी के नीचे पर बिना पूरी तरह छुए

**The cat is sitting under the chair.** (बिल्ली कुर्सी के नीचे बैठी हुई है।)

**Ram lives under the roof but Shyam doesn't even have a house.** (राम छत के नीचे रहता है पर श्याम के पास तो घर ही नहीं है।)

b) इसका उपयोग से कम के अर्थ में किया जाता है। [ **Less than** या **Younger than** ]

**She was under age.** (उसकी उम्र आवश्यकता से कम थी।)

**Below**

किसी सतह के स्तर से नीचे। (**below the level of some surface**)

**His mouth was below water but nose was above.** (उसका मुँह पानी के नीचे था पर नाक ऊपर।)

लिस्ट में नीचे। (**below in a list**)

**My name is below your name in the list.** (मेरा नाम लिस्ट में तुम्हारे नाम के नीचे है।)

#### **14) Above**

a) लिस्ट में ऊपर

**My name is above your name in the list.** (मेरा नाम लिस्ट में तुम्हारे नाम के ऊपर है।)

b) किसी सतह के स्तर से ऊपर (**above the level of some surface**)

**Only his eyes were above water.** (केवल उसकी आँखे पानी के ऊपर थी।)

#### **15) Off**

a) इसका उपयोग किसी स्थान से अलग होने (ऊपर से नीचे की ओर) के अर्थ के लिए होता है।

b) इसका उपयोग दूर रहो के अर्थ के लिए भी उपयोग होता है।

**Monkey jumped off the tree.** (बन्दर पेड़ से कूदा।)

**Keep off the flowers.** (फूलों से दूर रहो।)

#### **16) Through और Beyond**

a) **Through** - से - किसी चीज़ के आर पार देखना (**to see through some object**)

**I can see through the glass as it is transparent.** (मैं ग्लास से देख सकता हूँ क्योंकि ये पारदर्शी है।)

**I can see inside through this hole.** (मैं इस छेद के जरिये अन्दर देख सकता हूँ।)

b) किसी ऐसी चीज से गुजरना जो ऊपर, नीचे और किनारों से बन्द हो (**To move through a structure with limits on top, bottom and both sides**)

I was passing through a tunnel. (मैं एक गली से गुजर रहा था।)

We went through the underground way. (हम भूमिगत रास्ते से गये।)

Beyond - के पार (जो दिख न रहा हो) (**very far; not visible**)

There is something beyond this universe. (इस ब्रह्माण्ड के पार कुछ है।)

### 17) On

a) ऊपर या पर, रखा हुआ होना एक बड़े **object** के ऊपर एक छोटे **object** का रखा होना (**a smaller object on a bigger one**)

Mobile is on the table. मोबाइल टेबल के ऊपर है।

The cat is sitting on the table. बिल्ली मेज पर बैठी है।

b) Day और Date के साथ (**On Monday, On Tuesday**)

She is coming on Tuesday. वह मंगलवार को आ रही है।

Her joining is on Jan 1. उसकी ज्वाइनिंग 1 जनवरी को है।

c) किसी तरफ (**certain side**) - **on the right**

She was sitting on my right side. वो मेरी दाईं तरफ बैठी थी।

Her house is on the left side of the mall. उसका घर मॉल के बाईं ओर है।

### 18) Inside और Outside

Inside - अन्दर की तरफ, किसी बन्द आकृति के अन्दर (**be in an enclosed structure**)

What is inside the computer? (कम्प्यूटर के अन्दर क्या है ?)

Outside - बाहर की तरफ, किसी बन्द आकृति से बाहर (**be out of an enclosed structure**)

He was standing outside the home. (वह घर के बाहर खड़ा था।)

आज आपने कुछ **prepositions** के प्रयोग जानें। उम्मीद है कि आप अब इनका सही तरह से प्रयोग करेंगे।

**Prepositions** देखने में बहुत छोटे होते हैं लेकिन ध्यान रखिये ये वाक्य का अर्थ भी बदल सकते हैं।



